

जामिया मिल्लिया इस्लामिया  
जनसंपर्क एवं मीडिया समन्वयक कार्यालय  
प्रेस विज्ञप्ति 31 अक्टूबर 2020

### जामिया के कंट्रोलर ऑफ़ एकज़ामिनेशन ने रजिस्ट्रार का अतिरिक्त प्रभार संभाला

जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कंट्रोलर ऑफ़ एकज़ामिनेशन, डॉ नाज़िम हुसैन जाफ़री ने रजिस्ट्रार का अतिरिक्त पदभार संभाला। निवर्तमान रजिस्ट्रार, श्री ए पी सिद्दीकी (आईपीएस) के अपने पेरेंट कैडर हिमाचल प्रदेश वापिस जाने के आग्रह पर यह निर्णय किया गया। श्री सिद्दीकी ने विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार के रूप में चार साल तक काम किया।

व्यापक प्रशासनिक और अकादमिक अनुभव रखने वाले डॉ जाफ़री एक जनवरी, 2020 में जामिया में बतौर कंट्रोलर ऑफ़ एकज़ामिनेशन शामिल हुए।

जामिया आने से पहले, डॉ जाफ़री अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) में संयुक्त रजिस्ट्रार थे। इससे पहले, उन्होंने एएमयू में ज्वाइंट कंट्रोलर ऑफ़ एकज़ामिनेशन के रूप में भी काम किया है। उन्होंने एएमयू के रजिस्ट्रार का कार्यभार भी संभाला।

एएमयू से इतिहास में पीएचडी, डॉ जाफ़री ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय ट्राइबल यूनिवर्सिटी, अमरकंटक, मध्य प्रदेश के पहले रजिस्ट्रार के रूप में भी कार्य किया है। बाद में उन्होंने बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ, यूपी में कंट्रोलर ऑफ़ एकज़ामिनेशन के रूप में अपनी सेवाएं दीं।

उन्होंने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी-फारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ, यूपी में भी इसके रजिस्ट्रार के तौर पर काम किया है।

डॉ जाफ़री ने एएमयू में लेक्चरर के रूप में भी काम किया है और बाद में वे प्रशासनिक क्षेत्र में चले गए और वहां डिप्टी रजिस्ट्रार के रूप में काम करना शुरू किया।

वह यूजीसी की विभिन्न समितियों के सदस्य रहे हैं।

डॉ जाफ़री ने इतिहास में 5 पुस्तकें और 20 से अधिक शोध पत्र लिखे हैं।

उन्होंने इतिहास पर कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में हिस्सेदारी की।

**अहमद अज़ीम**

जनसंपर्क अधिकारी एवं मीडिया समन्वयक